

पालि
कक्षा-12

कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र-2021-22 में समय से विद्यालयों में पठन-पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत् 30 प्रतिशत पाठ्यक्रम कम किये जाने की अनुशंसा की गयी है:-

(1) गद्य-

(क) महापरिनिब्बान सुत्तं (भाणवार-6)

(ख) पालि प्रवेशिका (पाठ-24)

(2) पद्य-

(क) धम्मपद- (नागवग्गो)

(ख) चरियापिटक(पाठ-10)

उपर्युक्त के अनुक्रम में 70 प्रतिशत का पाठ्यक्रम निम्नवत् है-

पालि
कक्षा-12

इस विषय में 100 अंकों का केवल एक प्रश्न-पत्र 3 घण्टे का होगा।

(1) गद्य-

15+15=30

(क) महापरिनिब्बान सुत्तं (भाणवार 4 से 5)

(ख) पालि प्रवेशिका (पाठ 19 से 23)

(2) पद्य-

15+15=30

(क) धम्मपद (धम्मट्ठवग्गो, मग्गवग्गो, पकिण्णवग्गो)

(ख) चरियापिटक (दान पारमिता के अन्तर्गत 6 से 9 चरिया)

(3) व्याकरण, निबन्ध तथा अनुवाद

10+10+10=30

(i) व्याकरण-

10 अंक

(क) निम्नांकित संज्ञाओं तथा उनके अनुरूप अन्य शब्दों के रूप

[1] पुल्लिंग-मुनि, भिक्षु

[2] स्त्रीलिंग-इत्थी

[3] नपुंसकलिंग-अट्ठि, आयु

(ख) धातु रूप-वर्तमान, भूत, अनागत काल में निम्नलिखित धातुओं के रूप-

पठ, गम, रक्ख, पच, नम, बुध, सक, लिख, भुज, कथ, पूज।

(ग) सन्धियाँ-निम्नलिखित सूत्रों पर आधारित होंगी, परन्तु सूत्रों को कंठस्थ करना आवश्यक नहीं है।

[1] स्वर सन्धि-(यवा सरे)

[2] व्यंजन सन्धि-(सरम्हा द्वे)

[3] निग्गहीत सन्धि-(लोपो, वग्गो वग्गन्तो)

(घ) समास-निम्नलिखित समासों की सामान्य परिभाषा तथा उदाहरण :

[1] बहुब्रीहि समास [2] द्वन्द्व समास।

(ii) निबन्ध-पालि भाषा में संक्षिप्त निबन्ध (सरल सात वाक्यों में)

10 अंक

भगवाबुद्धो, कुसिनारा, राजा असोको, बोधगया।

अथवा

(iii) अनुवाद-हिन्दी वाक्यों का पालि में रूपान्तर

(अनुवाद का उद्देश्य छात्र/छात्राओं को पालि भाषा में वाक्य रचना एवं पालि भाषा के संगठन/पद्धति से परिचित कराना है)।

10 अंक

(4) पालि साहित्य का इतिहास-(द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक का सामान्य परिचय।

10 अंक

नोट :-अनुवाद के लिये कोई पाठ्य-पुस्तक निर्धारित नहीं है।

निर्धारित पाठ्य-पुस्तकें

(1) महापरिनिब्बान सुत्तं, सम्पादक- भिक्षु धर्मरक्षित, प्रकाशक ज्ञान मण्डल लिमिटेड, कबीर चौरा, वाराणसी।

- (2) पालि प्रवेशिका, संकलनकर्ता— डॉ कोमलचन्द्र जैन, तारा पब्लिकेशन, वाराणसी ।
- (3) धम्मपद, सम्पादक— भिक्षु धर्मरक्षित, प्रकाशक महाबोधि सभा, सारनाथ, वाराणसी ।
- (4) चरियापिटक, अनुवाद—भिक्षु धर्मरक्षित, प्रकाशक मास्टर खेलाडीलाल संकटा प्रसाद, वाराणसी
- (5) पालि व्याकरण, लेखक—भिक्षु धर्मरक्षित, प्रकाशक ज्ञान मण्डल लिमिटेड, कबीर चौरा, वाराणसी ।
- (6) पालि महाव्याकरण, लेखक— भिक्षु जगदीश कश्यप, प्रकाशक महाबोधि सोसायटी सारनाथ, वाराणसी ।
- (7) पालि साहित्य का इतिहास, लेखक— भिक्षु धर्मरक्षित, प्रकाशक ज्ञान मण्डल लिमिटेड कबीर चौरा, वाराणसी ।
- (8) मैनुअल ऑफ पालि, लेखक—सी0एस0जोशी, प्रकाशक ओरियन्टल बुक एजेन्सी, पूना ।